झारखण्ड देखो

Jharkhand Dekho

खबरें, कहानी, लोग और बहुत कुछ

Digital Edition

www.jharkhanddekho.com • वर्ष 02 • अंक 16 • पृष्ठ 6 • बुधवार 2 फरवरी 2022 Email - Jharkhanddekho@gmail.com | epaper - Jharkhanddekho.com

UDISE Code- 20110108005, JEPC Code- RTE/20/2021-22
Affiliated By Jharkhand Education Project Council
RGS gurukulam
(An Unit of Shatan Ashram)
Bright Future for your Kids
For More Detail : www.rgsgurukulam.com, Email- gurukulamrgs@gmail.com
Dhadhkia, Dumka, Mob.- 8409399342 (Principal), 7903712653 (Vice Principal)

Opening Shortly IX to X
Class Nursery to VIII
Medium Hindi & English
Admission Open
For More Detail : www.rgsgurukulam.com
School Van Facility Available

बजट 2022

पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख बनेंगे सस्ते घर

टैक्स भरने में यदि हुई गलती, कोई बात नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की । उन्होंने कहा कि क्रूफमें खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त दिया जाएगा। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है। संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। सरकार ने क्रूफमें गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी किया है। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान किया गया है। टैक्सपेयर किसी भी एसेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 2022–23 का रिटर्न फाइल किया और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए 2024–25 तक अपडेटेड रिटर्न फ़ाइल किया जा सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया। कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी। वहीं, NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।

नयी दिल्ली/एजेंसी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ढटअ) के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये घर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों स्थानों पर होंगे। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा,

'पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।''

उन्होंने कहा, ''इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरियों को लेकर समय कम करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी, ताकि शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा, ''हम मध्यस्थता की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ भी काम करेंगे। इससे पहले सोमवार को जारी आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम आवास योजना के तहत 25 नवंबर तक 33.99 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप और अध्यक्ष, एसोचैम-नेशनल काउंसिल ऑन रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रदीप अग्रवाल कहते हैं, "सरकार ने हमेशा अफोर्डेबल आवास पर ध्यान केंद्रित किया है और इस बजट में, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन के संबंध में घोषणा की गई, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने 2022-23 में अफोर्डेबल श्रेणी में 80 लाख घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। यह समग्र आवास उद्योग के लिए एक प्रमुख बूस्टर हो सकता है। यह सेक्टर में सकारात्मक भावना लाएगा और मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि करेगा। यह एक संतुलित बजट था जिसने शहरों में बहु-मॉडल परिवहन में सुधार और राजमार्गों को 25000 किमी तक बढ़ाने सहित समग्र आर्थिक विकास का ध्यान रखा। परिवहन में सुधार से शहरों में रोजगार पैदा होगा जिससे और आवास की मांग बढ़ेगी।

- वित्त वर्ष 2021–22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया, आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022–23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2022–23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
- आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मानक कटौती भी यथावत।
- तराशे और पॉलिश हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये किया गया।

झारखंडः कोयला खदान में चाल धंसने से 13 की मौत

धनबाद/एजेंसी।

झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की खदान में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां कोयला खदान में उतरे मजदूर चालकर गिरने से दब गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 13 मजदूरों की मौत हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि, पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से पीछे हट रही है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, खदान में अवैध खनन किया जा रहा था। इसी दौरान एक कोयले से भरा चालकर 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इसकी चपेट में कई मजदूर आ गए, जिसमें 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आनन-फानन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खदान में अभी भी राहत कार्य जारी है। कई लोग नीचे दबे हुए हैं।

Immediately Required

Franchise / Mitr Sewak

for working on following services on commission basis:-

- Amazon Easy store
- Mitr Digi Portal (AEPS, , DMT, ATM, RECHARGE, BILL PAYMENTS etc.)
- Online Bima for all major Bima Companies
- Online E-Store for E-Commerce
- Mutual fund, Tax filling, NPS, Share, Demat / online Trading
- Othere services

Registration Charges
2000+GST

Income opportunity of
Rs. 40,000-60,000 with les investment

Mitr Sewa Pvt. Ltd.
Vikas Sabke Dwaar

Immediately contact
Shri : Manoj Kumar
Post : Area Manager, Mitr Sewa Foundations
Mob : 9151005283, 9006469840
Email : manoj.kumar@mitrsewa.in

संक्षिप्त समाचार

दुमका में ग्रामीण विकास विभाग के क्लर्क की हत्या, सड़क पर मिला शव

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत दीप कुमार श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई है. वह विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे. घटना नगर थाना के शिव मंदिर रोड की है. दीप का शव जिस घर में वह रहते थे उसी के सामने सड़क के किनारे मंगलवार को मिला है. उसके सर और चेहरे पर काफी खून बिखरा हुआ है. दुमका नगर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार मौके पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दीप कुमार 2 साल से दुमका में कार्यरत थे. वह मूल रूप से रांची के रातू रोड के रहने वाले थे. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ विशेष कहा जा सकता है. मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है कि कल शाम से वो किनके संपर्क में थे.

1978 से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में मनाया जाता है दो फरवरी को पार्टी का स्थापना दिवस : नलिन सोरेन

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुधवार को 43 वां झारखण्ड दिवस मनाया जाएगा।वैश्विक महामारी कोरोना के कारण दूसरी दफा कार्यक्रम दिन में 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा।कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दुमका के विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन एवं शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन मौजूद रहेंगे। शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने बताया कि कि 1978 से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में प्रति वर्ष दो फरवरी को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है।कार्यक्रम मुख्यत शाम 5 बजे शुरू होता है जो लगभग रातभर चलता है।पूरे संथाल परगना से हजारों की संख्या में लोग दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सुनने पहुंचते हैं।पिछले वर्ष से कोरोना के कारण कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर दिन में किया जा रहा है। बुधवार को भी 12 बजे से 2 बजे तक दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखण्ड दिवस का आयोजन किया गया है।

डॉ प्रभात रंजन को दिया गया डीएस का प्रभार

देवघर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ प्रभात रंजन को डीएस का पदभार दिया गया है अब वे बतौर डीएस कार्यभार संभालेंगे।बताते चलें कि पूर्व डीएस डॉक्टर नन्दलाल पंडित 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं।वहीं सीएस कार्यालय ने पत्र जारी कर बताया गया है कि डॉक्टर नंदलाल पंडित चिकित्सा पदाधिकारी सह प्रभारी उपाध्यक्ष कि सेवानिवृत्ति को देखते हुए सदर अस्पताल देवघर में कार्यों की समुचित रूप से निर्वाहन हेतु कार्य व्यवस्था के तहत डॉ प्रभात रंजन चिकित्सा पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सदर अस्पताल देवघर के प्रभारी उपाधीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।डॉक्टर नंदलाल पंडित समस्त धारित प्रभार डॉ प्रभात रंजन चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपेंगे।

दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का दुमका हवाई अड्डा में आयुक्त तथा जिला प्रशासन द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, एसडीपीओ समेत जिले के तमाम अधिकारी उपस्थित थे।

आमजनों की समस्याओं को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। खिजुरिया स्थित आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना।बड़ी संख्या में लोग आवेदन के साथ मुख्यमंत्री से मिलने आये थे।सभी ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।समस्याओं ने निष्पादन हेतु उन्होंने संबंधित को निदेश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है।आपकी समस्याओं को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से योग्य लाभुकों को योजना लाभ देने का कार्य कर रही है।सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ के लोगों को ध्यान में रख कर बनायी जा रही है।समाज के अंतिम योग्य व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इस उद्देश्य के साथ सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। इस दौरान विधायक महेशपुर स्टीफन मरांडी, विधायक बसंत सोरेन भी उपस्थित थे।

मसलिया के कई गांवों को जोड़ने वाली दो मुख्य सड़क व ब्लॉक क्वाटर भवन निर्माण कार्य को विधायक ने कराया शुरुआत

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। विधायक सह झामुमो युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन ने दुमकवासियों के लिए सौगात की पिटारा खोलते हुए कई योजनाओं का विधिवत रूप से भूमि पूजन कर कार्य का शुरुआत कराया. विधायक श्री सोरेन ने प्रखंड क्षेत्र के सितासाल से राजमहल तक करीब पांच किलोमीटर सड़क जो काफी दिनों से जर्जर था ,राहगीरो को सड़क से साईकल तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल होती थी. सड़क बनाने की मांग अरसे से ग्रामीणों की थी. ग्रामीणों की मांग को विधायक ने पूरा करवाते हुए कार्यो की शुरुआत करा दी. सड़क की प्राक्कलित राशि 4.44 करोड़ है.वही शिकारपुर से धोवना जाने वाले सड़क भी काफी जर्जर हो चुका था. निर्माण के बाद अब तक एक बार भी मरम्मत नही हुआ था, इस सड़क का भी सुदृकरण के लिए 1.68 करोड़ रुपया से निर्माण होना है. जिससे इस क्षेत्र की जनता काफी खुश है. इसके अलावे प्रखंड परिसर में ब्लॉक क्वाटर का नए भवन निर्माण का शिलान्यास विधायक श्री सोरेन ने किया.जिसकी प्राक्कलित राशि 5.80 करोड़ है. मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो,बीडीओ पंकज कुमार रवि,कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण हरेंद्र कुमार ,अजय कुमार अनुज सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कनीय अभियंता निहार रंजन, संजय कुमार,नीरज कोडरिवल, जिला उपाध्यक्ष निशित वरण गोलदार,प्रखंड अध्यक्ष बसुदेव टुडू,अशीत वरण गोलदार,सदानन्द आजाद, जयदेव दत्ता,नितेश यादव, राजेश बेसरा,बसुदेव राय,वकील मुर्मू,जेठू मियां आदि मौजूद थे.

महिला पर्यवेक्षिका उषा कुमारी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। बाल विकास परियोजना कार्यालय दुमका में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत उषा कुमारी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दुमका रीता बेसरा ने महिला पर्यवेक्षिका उषा कुमारी को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और कहा कि उषा जी बहुत ही योग्य कर्मठ और अनुशासित सुपरवाइजर रही हैं। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमारे विभाग में उषा जी हमेशा हमलोगों याद आयेंगी। इस अवसर पर प्र-खंड विकास पदाधिकारी राजेश सिन्हा और अंचल अधिकारी यामुन रविदास ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए और उषा कुमारी को बहुत ही व्यवहार कुशल बताया। उनके कार्य कलापों की सराहना की और साथ ही यह भी कहा कि महिला पर्यवेक्षिका उषा से अन्य कर्मियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में दुमका प्रखंड के प्रमुख हेमंत हेम्ब्रम सहित संबंधित कार्यालय परिवार के सभी कर्मी एवं महिला पर्यवेक्षिका मीना साह, सरोजिनी सोरेन, दिपाली मिश्रा, मुखी मुर्मू, टेरेसा मराण्डी, प्रखण्ड समन्वयक सुजाता कर्ण, तेजस्विनी के संदीप वर्मा, रोहित कुमार, मोनिका किस्कू और विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से आई सेविका सहायिका उपस्थित थी।

कोविड-19 के तहत होगा स्थापना दिवस का आयोजन-बसंत सोरेन

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। झामुमो के 43 वें झारखंड दिवस में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झामुमो सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दुमका पहुंचे चुके हैं। ज्ञात हो कि दो फरवरी को दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 43 वां झारखंड मनाया जाएगा। दो फरवरी का दिन झामुमो के लिए खास है, इस दिन का बिशेष महत्व है। दो फरवरी को दिशोम गुरु झामुमो का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं तत्पश्चात पार्टी की नीतियों से आमजनों को अवगत कराया जाता है।इस बार जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, सिर्फ दुमका जिले के विधायक ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसकी जानकारी दुमका विधायक बसंत सोरेन ने प्रेस वार्ता कर दिया । बिहारी ने कहा कि कोवीड-19 गाइडलाइन के तहत स्थापना दिवस मनाया जाएगा।प्रेस वार्ता के दौरान शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन एवं पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार, अब्दुल सलाम, आलोक सोरेन आदि मौजूद थे।

आम जनता के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा केन्द्रीय बजट : सुनील सोरेन

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। सांसद सुनील सोरेन ने भारत सरकार के द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट की सराहना की है । सुनील सोरेन का कहना है कि यह बजट सिर्फ 1 या 2 वर्ष के लिए रोडमैप तैयार नहीं करेगा बल्कि अगले 25 साल के ग्रोथ लिए ब्लूप्रिंट तैयार होगा । इस बज़ट से देश के विकास को बल मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियों का अवसर प्राप्त होगा । सांसद ने कहा कि आज देश में युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत नौकरियों की है ऐसे में आज के बजट में जो 16 लाख लोगों को सरकार ने नौकरी देने की का वादा किया है , यह काफी सराहनीय है । इसके साथ ही 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा । जिसमें सरकार ने 48 हज़ार करोड रुपये का बजट रखा है । यह गरीबों के लिए काफी राहत की ख़बर है । दुमका सांसद ने कहा कि आगामी 3 साल में 400 बंदे भारत ट्रेन बनाने की जिस योजना सरकार ने घोषणा की है इससे सीधे तौर पर आम लोगों को लाभ पहुंचेगा । सांसद ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के विकास का भी ध्यान रखा है और यह घोषणा की है कि राज्यों को मुफ्त ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा । इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई । वही पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 15 सौ करोड़ रुपए के पैकेज देने की भी बात बजट में कही गई है । सांसद ने कहा कि आज पूरे देश में हाईवे का जाल बिछाई जा रही है और आज के बजट में इसमें 25 हज़ार किलोमीटर हाईवे बनाने की घोषणा हुई है जो कि देश के विकास में सहायक साबित होगा । कुल मिलाकर यह कहे कि आज का बजट आम जनता का तो बजट है ही साथ ही साथ पूरे देश को तीव्र गति से विकसित करने वाला बजट है ।

गरीब किसान विरोधी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है आम बजट: अमरेन्द्र यादव

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि वित्त मंत्री ने आम बजट को 25 सालों का दूरदर्शी बजट बताकर देश के बेरोजगार युवाओं को छलने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था को तत्कालिक सुधारने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। बजट में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं दिया गया है, जबकि सरकार के पूंजीपति मालिकों के लिए कारपोरेट टैक्स में रियायत दिया गया है। देखा जाए तो यह जनता की उम्मीदों पर पानी फेंकने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने आंकड़ेबाजी कर आम जनता को गुमराह किया है। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। युवाओं को भी निराशा हाथ लगी है। पूर्व में की गई रोजगार की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। पुनः नए नौकरी का वादा किया जा रहा है। लेकिन यह नौकरी किस क्षेत्र में दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। किसानों को इस बार भी बजट से निराशा हाथ लगी है। क्योंकि उनकी आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिससे यह भी जुमला साबित हुआ है। देश का गरीब तबका बढ़ती महंगाई से परेशान है। लेकिन इसमें महंगाई नियंत्रण की दिशा में कोई घोषणा नहीं करते हुए उल्टे महंगाई बढ़ाने का काम किया है। किसानों के लिए फर्टिलाइजर में मिलने वाली सब्सिडी की राशि 40 हजार करोड़ घटा दिया गया है। फूड सब्सिडी में भी 80 हजार करोड़ कटौती की गई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर एक हजार करोड़ की सब्सिडी कम कर दी गई है। किसानों की कर्ज माफी की बात तो दूर उन को भ्रमित करने के लिए ड्रोन पर सब्सिडी की बात कही गई है। जिसका हमारे देश के ज्यादातर किसानों के पास कोई उपयोग नहीं है। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में भी बजट कम कर दिया गया हैं। इससे यह साबित होता है कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला, आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने कहा था आप मुझे 10 वर्ष का मौका दें मैं देश की तक-दीर को बदल दूंगा। अब सरकार को 25 साल का मौका चाहिए। यह बिल्कुल हास्यास्पद प्रतीत होता है।

नोनीहाट में सड़क हादसे में खलासी की मौत

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। नोनीहाट-दुमका मुख्य पथ पर नोनीहाट बस स्टैंड के पास सोमवार की रात 11 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने युवक की मौत हो गई। युवक का सिर कुचल गया था। मृतक की पहचान शारंगपानी गांव के पंचू लायक (29) के रूप में हुई। वह नोनीहाट के ट्रक में खलासी था। हंसडीहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।

दुमका के वकीलों ने काला बिल्ला लगाया

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। झारखंड हाईकोर्ट के वकील हेमंत सिकरवार पर हजारीबाग में जानलेवा हमले की घटना से वकीलों में रोष है। मंगलवार को दुमका जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखा। वकील न्यायिक प्रक्रिया से दूर रहे। दुमका के वकीलों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने घटना की निंदा की।

पुलिस की दबिश व ताबड़तोड़ छापेमारी से गिरफ्तारी की भय से नेहरु ने कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली ?

पाकुड़/झारखंड।

दो मासूम बच्चों की हुई हत्या के मामलें में मुख्य आरोपी नेहरू मरांडी का नाम सामने आने बाद खुद उसने गिरफ्तारी के भय से कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली. सोमवार की देर शाम नेहरू का शव एक पेड़ से लटकती हुई अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के अम्बाडीहा गांव के घने जंगल से पुलिस ने बरामद की है. शव का मंगलवार को सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित दंडाधिकारी की उपस्थिति में वीडियो ग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की गई है. हालाँकि कही ना कही डबल मिस्ट्री मर्डर मामलें में नेहरू की आत्महत्या पर कई सवाल भी लोग खड़े कर रहे है. सदर अस्पताल के डीएस डॉ अमित कुमार ने बताया की नेहरु का शव मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम की गई है रिपोट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. इधर ग्रामीण सूत्रों की माने नेहरु का नाम मर्डर में आने के बाद वह गाँव के आस पास में ही पनाह लिए हुए था. रविवार को अम्बाडीहा गांव के लोगों ने उसे गाँव के आस पास देखा है. हालांकि दो मासूमों की हत्या के बाद से नेहरु मरांडी के प्रति गाँव के लोग काफी खफा थे. कही ना कही ग्रामीणों का गुस्सा नेहरु पर नजर पड़ते ही फुट पड़ा हो और उसे मौत की नींद सुला दी. हालाँकि यह पुलिस के लिए जाँच का विषय है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है जिस ढंग से नेहरु का शव लटकता पाया गया वह कही ना कही बनावटी बताया जा रहा है. अब आने वाले समय में पुलिस की तप्तिश से खुलासा होगा की डबल मिस्ट्री मर्डर मामलें में नेहरु मरांडी ने आत्महत्या की या फिर किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया. हालाँकि इस मामलें में अमड़ापाड़ा पुलिस नेहरु मरांडी का आत्महत्या कर लेना पुलिस की दबिश और अम्बाडीहा और आसपास के गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी से गिरफ्तारी के भय से कहीं ना कही यह कदम उठाया माना जा रहा है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद शव में कहीं कोई जख्म का निशान नहीं है. शव का जीभ और आँख निकला पाया गया है. और शरीर का कई हड्डी टूटने की बात सामने आई है. हालाँकि इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोट आने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा।

● 28 जनवरी को तडके हुई थी दो मासूमों की आँख निकाल कर हत्या

शुक्रवार के तडके अम्बाडीहा के मांझीटोला में दो मासूमों की हत्या की हटना को नेहरु मरांडी ने अंजाम दी थी. दोनों मासूमों का नेहरु ने निर्दयी तरीके से आंख निकाल कर हत्या कर दी थी हालांकि घटना के बाद अमड़ापाड़ा पुलिस ने इस मामलें में तत्काल तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना के बाद नेहरु मरांडी घर से फरार हो गया था और उसकी खोज में पुलिस अमड़ापाड़ा से दुमका तक आठ एसआईटी टीम कर रही थी. इस मामलें में आरोपी के माता-पिता के साथ बड़ा भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दो परिवारों के बीच आपसी जमीन विवाद की रंजिश के कारण क्रूरता के साथ हत्या कर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्चों के पिता प्रेम मरांडी के बयान पर मामला दर्ज किया था। मृतक के पिता ने बताया की मेरा 10 वर्षीय मर्शिला मरांडी और 8 साल का पुत्र बाबूलाल मरांडी को अपने ही गोतिया प्रधान मरांडी का पुत्र नेहरू मराण्डी उर्फ टूरका मरांडी ने हत्या कर फरार हो गया था।

संक्षिप्त समाचार

महेशपुर में दो बाइक के बीच भीषण टक्कर में 3 लोग घायल

पाकुड़/झारखंड देखो। पाकुड़ जिले के महेशपुर मुरारई मुख्य अंबेडकर चोंक के समीप मंगलवार को दो बाइक के बीच सीधी टक्कर में तीन लोग घायल हो गया । इस घटना में बाइक चालक अताउल अंसारी का एक पैर टुट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलमपुर के पिरू शेख सिलमपुर से महेशपुर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से जाती बाइक चालक अताउल अंसारी ने अंबेडकर चोंक के समीप सामने से धक्का मार दिया । जिससे बाइक सवार पिरू शेख 50 वर्ष घायल हो गया। वही अन्य बाइक चालक अताउल अंसारी 25 का पैर टुट गया। वही अन्य एक युवक अकबर अंसारी गायबथान भी गंभीरता रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग दुर्घटना होते देख तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सक डॉ अंजनी कुमार भगत द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद अताउल अंसारी और पिरू शेख को बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया। उधर पुलिस टीम मामले की छानवीन में जुटी है।

गोपीकांदर प्रखंड के आधे दर्जन गांव में बांटे गए कंबल

पाकुड़/झारखंड देखो। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच कंबल गोपीकांदर प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ते ठंड को देखते हुए गोपीकांदर, प्रखंड के सुगापहाड़ी, बासपहाड़ी, टांयजोर अमढ़पानी, मोड़ासाल में दर्जनों जरूरतमंद गरीब विकलांग एवं असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया. कोविड-19 को देखते हुए झारखंड स्थापना दिवस 2 फरवरी मैं जाने के लिए रणनीति बनाया गया. मौके पर सांसद प्रतिनिधि संतोष मरांडी झामुमो के विधायक प्रतिनिधि लखीचंद मंडल पंचायत प्रतिनिधि भूटू सोरेन, गब्रिएल टुडू, श्रीनाथ सोरेन, मीडिया प्रभारी, निजू मंडल, दशरथ भगत, बदरुल, सहित दर्जनों झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

किसान श्रमिक मित्र एशोसिएशन के प्रखंड कार्यालय का उदघाटन

पाकुड़/झारखंड देखो। पाकुड़िया स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के नजदीक मंगलवार को किसान श्रमिक मित्र एशोसिएशन के प्रखंड कार्यालय का उदघाटन संस्था के संताल परगना प्रभारी तूफान भगत एवं मोंगलाबान्ध पंचायत की मुखिया करुणा हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उदघाटन के दौरान संताल परगना प्रभारी तूफान भगत ने बताया कि किसान श्रमिक मित्र एसोसिएशन संस्था किसान श्रमिको को किसान श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न तरह के सरकारी लाभ पहुँचाने में एक सेतु का कार्य करेगी। इस योजना के तहत पशु,कीट एवं सर्प हमले के कारण मृत किसान श्रमिको को 1 लाख रुपये मिलेगा, किसानों को अपनी खेती के लिए कीटनाशक दवाइयों में 50 प्रतिशत का छूट मिलेगा, किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी, खेती के उपकरणों पर किसानों को 3 से 20 प्रतिशत तक छूट प्राप्त होगी। आयुष्मान कार्ड से वंचित किसानों को संस्था उन्हें कार्ड बनवाएगी। अगर किसान का श्रम कार्ड नही है तो उन्हें श्रम कार्ड बनवाएगी इस तरह अनेको योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचाने के लिए संस्था कार्य करेगी। इस अवसर पर नारी विकास योजना के तहत महिला किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया गया। मौके पर संस्था के पाकुड़िया प्रखंड प्रभारी अताउर रहमान, पंचायत प्रभारी मीणा देवी जयसवाल, अनिता देवी, नूर हसन, रेखा देवी आदि उपस्थित थे।

राजस्व कर्मचारियों की बैठक, लगान वसूली पर विशेष ध्यान देनेः सीओ

पाकुड़/झारखंड देखो। अंचल कार्यालय पाकुड़िया में मंगलवार को सभी राजस्व कर्मचारियों की बैठक अंचलाधिकारी किरण डांग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मौके पर सीओ किरण डांग ने गत बैठक में दिये गये दिशानिर्देशों एवं कार्यवाई के अद्यतन रिपोर्ट की गहन समीक्षा की। साथ ही लगान वसूली पर विशेष ध्यान देने, धारा 144 अंतर्गत लंबित जाँच प्रतिवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने, निर्माणाधीन राजदाहा-गणपुरा पीडब्ल्यूडी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण स्थल सत्यापन कर अधिग्रहित की जानेवाली भूमि को चिन्हित कर संबंधित लोगों की वंशावली का सत्यापन एवं खेसर पंजी संग्रहण त्वरित गति से करने का कड़ा निर्देश राजस्व कर्मचारियों को दिया गया । सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन ससमय अंचल कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने एवं हाजिरी देने के उपरांत ही आदेशानुसार कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों को जाने का निर्देश दिया गया । प्राकृतिक आपदा से संबंधित अभिलेखों का संधारण करने,सभी प्रधानी गाँवों के परम्परागत पदधारक यथा ग्राम प्रधान, प्राणिक,नाइकी एवं गुडित को प्रतिमाह सम्मान राशि देने हेतु आवशयक कार्यवाही का निर्देश दिया गया। मौके पर अंचल निरीक्षक सुभाष यादव, राजस्व कर्मचारी रूपा माल्टो, विवेक तिरु, धन मरांडी, मो नसीम अख्तर,फुलकान्त साहा, सुखदेव देहरी, उमाकांत यादव सहित सभी कार्यालय लिपिक मौजूद थे ।

एटीएम सुरक्षाकर्मियों ने मानदेय कटौती पर किया विरोध प्रदर्शन

पाकुड़/झारखंड देखो।

एटीएस सिक्योरिटी कंपनी के अधीन कार्यरत एसबीआई एटीएम के सुरक्षा कर्मियों ने मानदेय में कटौती और कंपनी के सुपरवाइजर संतोष कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए एटीएम सुरक्षा कर्मियों ने मानदेय में कटौती के साथ-साथ कंपनी के सुपरवाइजर संतोष कुमार पर अवैध रूप से सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया। मौके पर सुरक्षाकर्मी छोटे हरिजन, कामदेव कुमार, विक्रम प्रियदर्शी, संजय कुमार यादव, विकास कुमार साह, प्रदीप मालतो, सोनू कुमार सिंह, अक्षय कुमार आदि ने कहा कि सभी सुरक्षा कर्मी एपीएस सिक्योरिटी कंपनी के अधीन काम करते हैं और वर्तमान में सभी एसबीआई एटीएम में कार्यरत है। कंपनी के द्वारा 9,500 रुपए प्रति महीने मानदेय देने की बात कह रही है। जबकि पूर्व में जब हम एसआईएस कंपनी में थे तब 14,753 रुपए मानदेय मिलता था। एसआईएस कंपनी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नया टेंडर एपीएस सिक्योरिटी कंपनी को मिला है। जिसके अधीन काम कर रहे हैं। इस कंपनी के द्वारा मानदेय में कटौती कर 9,500 रुपए भुगतान करने की बात कह रही है। कंपनी के सुपरवाइजर संतोष कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि काम के बदले 16,500 रुपए मांगा जा रहा है।इसकी शिकायत आरबीओ पाकुड़ के आरएम से किया गया है। आरएम ने इस संबंध में कंपनी से वार्तालाप करने का आश्वासन दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि सुपरवाइजर संतोष कुमार जब ओरियन कंपनी में थे, उस समय भी सुरक्षाकर्मियों को परेशान किया करते थे। अगर कोई एटीएम छोड़कर बाथरूम भी जाता था तो एक घंटे का 6,500 रुपए काट लिया जाता था। फिर उस गार्ड को हटाकर दूसरे को काम पर लगाया जाता था। हम सुरक्षा कर्मी इनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इसलिए इसे हटाया जाना जरूरी है। इधर कंपनी के सुपरवाइजर संतोष कुमार ने सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है।

जरूरतमंद और बेसहारों के बीच झामुमो नेता किया कंबल का वितरण

हिरणपुर (पाकुड़)।

हिरणपुर प्रखंड के पाडेरकोला गांव में गरीब के घरों में जाकर एवं कैम्प लगाकर जरूरतमंद और बेसहारों को कड़ाके की ठंड से राहत दिलाना का बीड़ा आपके झामुमो नेता विकास कुमार साहा ने उठाया। गरीब, बेबस, असहायों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले झामुमो नेता विकास साहा का हाथ एक बार फिर मदद के लिए बढ़ा है। मंगलवार को ग्रामीणों के विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में गरीबों व वंचितों के बीच कम्बल वितरित किए गए। हांड़कंपाऊ ठंड के बीच कम्बल पाकर जरूरतमंदों ने काफी राहत महसूस की। झामुमो नेता विकास साहा ने कहा कि मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ना ही बिना चादर ओढ़े किसी की रात गुजरे। विकास साहा ने कहा कि मैं खुद गरीबी में पला बढ़ा हूं। मुझे गरीबी में जीने का कष्टदायक एहसास है। उनके दुख दर्द को मैं भली-भांति समझ सकता हूं। आज मुझे गरीबों का सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं। गरीब लोगों का कहना है कि अब रात आसानी से कट जाएगी। मौके पर ग्राम प्रधान जीसू टुडू, नारायण साहा, सहदेव साहा, प्रेम हांसदा, करुणा साहा आदि मौजूद थे।

ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नो एंट्री में वाहन की प्रवेश पर रोक लगाने से जताई नाराजगी

पाकुड़/झारखंड देखो। जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन की मंगलवार को शहरकोल स्थित पेट्रोल पंप के पास बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष फिरोज अली ने किया। अध्यक्ष फिरोज ने कहा कि नो एंट्री खुलने के बाद भी ट्रैक्टरों को शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है। इस मामले को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलेंगे। ताकि हमें इस प्रतिबंध से नियमानुसार छुटकारा मिले। अध्यक्ष ने कहा कि किसी तरह ट्रैक्टर चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अधिकतर ट्रैक्टर मालिक बैंक के ऋण में डूबे हुए हैं। किस्त भी सही समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर रोक लगाने से हमारे समक्ष मुसीबत खड़ी हो गई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ट्रैक्टरों के प्रवेश पर इस तरह का प्रतिबंध हटाया जाए। ताकि हम अपना ट्रैक्टर चलाकर परिवार का भरण पोषण कर सकें। बैठक के बाद ट्रैक्टर मालिकों ने पुराने डीसी ऑफिस के पास ट्रैफिक पर पहुंची नगर थाना की पुलिस से भी मुलाकात की और अपनी बातों को रखा। इधर इसी दौरान नगर थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव एवं सीओ आलोक वरण केसरी भी पहुंचे। सीओ ने ट्रैक्टर मालिकों के बातों को लेकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह मामला वैध और अवैध परिवहन का है। सीओ ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी ने बिना कागजात के किसी भी वाहन के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अगर बालू या कोई भी सामान ले जाते हैं, तो कागजात जरुरी है। बिना कागजात के परिवहन नहीं कर सकते हैं।

कोविड-19 के तहत झामुमो मनाएगी स्थापना दिवस

पाकुड़/झारखंड देखो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43 वां स्थापना दिवस को लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी चरम पर है। आज बुधवार को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस को लेकर मंगलवार दिन भर तैयारियों का दौर जारी रहा। जिलाध्यक्ष श्याम यादव के नेतृत्व में मंच बनाने का काम चला। जिलाध्यक्ष ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसमें कम से कम लोगों को शामिल करने की योजना है। जिले के प्रखंडों से भी कार्यकर्ता आएंगे। सभी प्रखंड अध्यक्ष को कम से कम संख्या में आने का निर्देश दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम 12:00 बजे से शुरू होगा। जिसमें मुख्य रूप से युवा सांसद विजय हांसदा, विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी एवं विधायक दिनेश विलियम्स मरांडी शिरकत करेंगे। मौके पर हबीबुर रहमान, नगर सचिव नूर आलम, नगर उपाध्यक्ष रियाज अंसारी, कमल रावत, वासिम अकरम, जहूर आलम, जाकिर हुसैन, बरिस्टर यादव, मतिउर रहमान उर्फ दीपू आदि मौजूद थे।

जलापूर्ति सिस्टम की गुणवत्ता का पोल खुलना शुरू

पाकुड़/झारखंड देखो। पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों में पंचायत मद से स्थापित किए गए सोलर चलित जल मीनारों का इन दिनों खास्ता हाल है। निर्माण के मात्र दो-तीन सालों में इन जलापूर्ति सिस्टम की गुणवत्ता का पोल खुलना शुरू हो गया है । बात है पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत मोंगलाबान्ध पंचायत के ढेकीडुबा गाँव में निर्मित जलापूर्ति जल मीनार का, यहाँ मस्जिद टोला में मात्र तीन साल पहले पंचायत मद की राशी से सोलर चलित जल मीनार की निर्माण हुई है। लेकिन इसमें घटिया गुणवत्ता का पिभीसी टँकी लगाए जाने के कारण निर्माण के कुछ ही महीने बीतने के बाद ही टँकी फट गई और इसका पानी रोजाना बह कर बर्बाद हो जाता है। इस बाबत ग्रामीण बिलाल अंसारी, सरदाम अंसारी, खुलफ्ट मियाँ, सुल्तान मियाँ आदि ने बताया कि यहाँ सोलर सिस्टम जलापूर्ति निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गयी है, जिस कारण इसका टँकी कुछ ही दिनों में स्वतः फट गयी है, टँकी फटने से इसमें पानी का ठहराव नही होता है, इस जलापूर्ति से पानी तभी तक मिलता है जबतक मोटर चालू रहता है, मोटर बंद होते ही पानी का आपूर्ति होना बंद हो जाता है। रोजाना हजारों लीटर पानी सड़क पर ही बह कर बर्बाद हो जाता है। यहाँ करीब साढ़े तीन लाख की लागत से निर्मित सोलर जलापूर्ति का उचित लाभ ग्रामीणों को नही मिल पाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से संज्ञान लेते हुए यहां खराब ×फटे हुए टँकी को बदलकर गुणवत्तापूर्ण टँकी लगवाने की माँग की है।

महेशपुर विधायक ने फुटबॉल टूर्नामेंट में विनर और रनर टीम को बांटा ट्रोफी

पाकुड़/झारखंड देखो।

महेशपुर विधायक प्रो.स्टीफन मरांडी सोमवार को पाकुड़िया प्रखंड के दो अलग अलग स्थानों में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए । प्रो मरांडी यहाँ रामघाटी फुटबॉल मैदान में एनजेबीसी क्लब एंव फुलोपानी फुटबॉल मैदान में बीएमएम क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फुटबाल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान दोनों जगहो के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि विधायक प्रो.मरांडी सहित अन्य अतिथियों का पारंपरिक आदिवासी रितिरिवाज से भव्य स्वागत किया गया। रामघाटी फुटबॉल मैदान में फाइनल मैच नानाकुमंग चकला और मिलन बयार टीमों के बीच खेला गया जिसमें नानाकुमंग की टीम विजेता बनी । जबकि फुलोपानी फुटबॉल मैदान में बिरसा मुंडा फुलेपानी व एफसी जामडूपानी के बीच हुआ जिसमें जामडूपानी की टीम विजेता बनी। इससे पहले विधायक ने फूलोपानी में टॉस के उपरांत फुटबाल को किक मार कर फाइनल मैच का उदघाटन किया। वही दोनो ही टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी विधायक प्रो मरांडी ने खिलाड़ियों एवं उपस्थित खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने पहली बार झारखंड के सभी जिले में खेल पदाधिकारी नियुक्त किए जाने पर खुशी जताई। चुकी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश से झारखंड सरकार द्वारा किया गया यह एक ऐतिहासिक व सराहनीय कदम है। जिसका सीधा लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा की पंचायत स्तर पर भी खिलाड़ियों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ है,जिसका लाभ खिलाड़ियों को सरकार दे रही है। विधायक ने कहा कि खेल के साथ-साथ पढ़ाई भी जरूरी है। इस दौरान विजेता एवं उपविजेता टीमों को विधायक प्रो. मरांडी ने सम्मानित किया। विधायक ने आयोजनकर्ता ग्राम प्रधान व क्लब के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चौबे, मोतीलाल हाँसदा, मईनुद्दीन अंसारी, अशोक भगत, अली मुहम्मद, अब्दुल बनीज, कुबराज मराडी, मुनीराम मरांडी, अजिमुद्दीन अंसारी, मनेजर हेम्ब्रम, नेजाम अंसारी, विनोद भगत, विश्वजीत दास, तिमोती हाँसदा ,बाबुराम मुर्मू,कन्हैया भगत, मिरूलाल सहित अन्य झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

पूर्व कोडरमा सांसद पर हमला के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

तिसरी/गिरिडीह। कोडरमा लोक सभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रविन्द्र कुमार राय पर जानलेवा हमला होने के विरोध में मंगलवार को तिसरी प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित होकर तिसरी मुख्यालय स्थित गांधी मैदान से तिसरी पैदल मार्च निकाल नारे बाजी करते हुए तिसरी चौक पहुंच कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर हमला में सामिल अपराधियो की अभिलंब गिरफ्तारी करने का मांग किया गया। हेमंत सरकार हाय हाय,गद्दी छोड़ो,विधि व्यवस्था दुरुस्त करो समेत कई नारा लगाया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा राज्य में आम तो आम खास लोग भी सुरक्षित नही है।जज से लेकर वरिष्ठ नेता अधिकारी पर हमला हो रही है।पुलिस व खुफिया तंत्र फेल हो गई है।हेमंत सरकार के शासन में नक्सली, अपराध, भ्रष्टाचार में काफी बढ़ोतरी हुई है।हेमंत सोरेन सरकार चलाने में सक्षम नही है । उन्हे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मण मोदी, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रवींद्र पंडित, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रकाश पासवान,तिसरी थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव ,भाजपा किसान मोर्चा तिसरी मंडल अध्यक्ष कपिल यादव ,तिसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा , सौदागर पंडित ,बालमुकुंद राम, उपेंद्र साव,बिरेंद्र राय ,संदीप शर्मा , अर्जुन यादव, जानकी यादव, कृष्णा सिन्हा समेत दर्जनों लोग सामिल रहे।

संक्षिप्त समाचार

अपने दो बच्चों की वापसी हेतु पुलिस से लगाई गुहार

गिरिडीह। एक पिता ने अपने दो बच्चों के सकुशल वापसी के लिए पुलिस से गुहार लगायी है।तिसरी निवासी भादो मरांडी ने अगल अलग गांव के तीन लोगों पर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुआ मामला दर्ज कराया है।मामला गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र का है।

महिला थाना को दिए आवेदन में पीड़ित व्यक्ति ने कहा है कि तिसरी के ही रहने वाले मनोज हांसदा, सावना सोरेन और सुनील यादव ने उनके बच्चों को काम दिलाने का प्रलोभन देकर दिल्ली ले जाने की बात कही थी। इसके लिए उन लोगों ने 26 हजार रुपये भी दिये थे। उनकी बात में आकर उसने 15 वर्षीय बेटी सुनीता मरांडी और 12 वर्षीय बेटा अरविंद मरांडी को उनके साथ भेज दिया। लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसने अपने आवेदन में कहा कि बीते महीने जनवरी में जब वह अपने बच्चों से फोन पर बात कर रहा था, तो दोनों काफी डरे हुए थे,वे लोग कहां है, कैसे हैं, इसकी जानकारी नहीं दे पाए।इसके बाद उसने सावना सोरेन से दोनों बच्चे को वापस लाने को कहा तो वह टालमटोल करता रहा। भादो मरांडी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही सावना ने उसके भाई के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट किया कि तीनों के खिलाफ कोई केस दर्ज न कराया जाए।अब जबकि उसके दोनो बच्चे मुश्किल में है तो वो अपने दोनो बच्चों को सकुशल वापस चाहता है।

एसीबी ने बिजली कर्मी को 2 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

धनबाद। धनबाद में एसीबी ने आज मंगलवार की सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कर्मी को दो हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। बताया जाता है कि धनबाद में पदस्थापित विद्युत अवर प्रमंडल धनबाद के बड़ा बाबू शिवकुमार मेथी ने करकेंद डिवीजन के जूनियर लाईनमैन मरांडी से इंक्रीमेंट पास कराने के एवज में पांच हजार रुपये की मांग रखी थी।जिसके बाद जूनियर लाइन ने मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय को सूचना दिया।जिसकी तहकीकात करने के बाद मामला सत्य पाए जाने पर एसीबी ने टीम गठित कर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में घेराबंदी की।जहां जूनियर लाईनमैन को पांच हजार रुपये की मांग के एवज में दो हजार रुपये का भुगतान किया।जिसके बाद एसीबी ने मौके पर पैसे के साथ बड़ा बाबू को रंगे हाथ दबोच लिया। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद एसीबी की टीम ने उसे अपने कार्यालय ले गई। जहां उससे पूछताछ चल रही है। इस बाबत एसीबी के पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग का वर्ष 2022 का यह पहला मामला है, जिसमें रिश्वत लेते सरकारी कर्मी को दबोचा गया है।

प्लस टू उच्च विद्यालय बड़कागांव को मॉडल स्कूल बनाने के लिए सर्वेक्षण

बड़कागांव। बड़कागांव प्लस टू उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने के लिए क्रिएटर कन्सेलटेन रांची की टीम के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। टीम ने पूरे विद्यालय परिसर को सर्वेक्षण कर विद्यालय परिवार से पूरी जानकारी ली। मॉडल स्कूल बनाने के लिए आवशयकतानुसार नए भवन निर्माण के साथ-साथ जर्जर भवनों का मरम्मत, लैब, लाइब्रेरी खेल मैदान, खेल सामग्री, शौचालय का निर्माण, पानी की व्यवस्था से लेकर सभी तरह की आधुनिकता व्यवस्था करने का प्राक्कलन है। सर्वेक्षण टीम में रांची रेहान से मुकुंद रंजन, हजारीबाग जिला अभियंता सीबी सिंह, कनीय अभियंता संजय कुमार ठाकुर, शामिल थे। टीम द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सुधा कुमारी एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह से पूरी जानकारी ली। इस अवसर पर शिक्षक मनीष चंद्र पांडे, कुलेश्वर महतो, दीपक प्रकाश, अशोक राम, निकास रजवार, अमित शर्मा ,जितेंद्र कुमार, युवराज सिंह, पारसनाथ महतो सहित अन्य लोग सर्वेक्षण टीम को सहयोग कर रहे थे।

यादव समाज का वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न, यादव भवन निर्माण का लिया गया निर्णय

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। तिसरी प्रखण्ड के कलवा नदी के किनारे यादव समाज का वनभोज सह मिलन कार्यक्रम राष्ट्रीय यादव सेना के नेतृत्व में सम्पन हुआ। वनभोज कार्यक्रम में प्रखण्ड के सभी पंचायत के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय यादव एवं संचालन सेना के प्रखण्ड अध्यक्ष लालू यादव ने किया। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करने का निर्णय लिया गया। निर्णय लिया गया कि तिसरी प्रखण्ड मुख्यालय में यादव भवन सह छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिससे समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल लाया जा सके। वहीं सभी पंचायतों में बैठक कर सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु छोड़छाड़,जमीन विवाद आदि को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत, कृष्ण मिशन सोसाइटी के संस्थापक डॉ अशोक यादव, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जिप सदस्य प्रतिनिधि किसुन यादव, राष्ट्रीय यादव सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव,प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, महासभा के रामचंद्र यादव, सत्यनारायण यादव, नंदकिशोर यादव, विनोद यादव,मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव, सुरेश यादव, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप यादव, वकील श्याम सुंदर यादव, सेना के प्रखण्ड उपाध्यक्ष प्रकाश यादव, सोनू यादव, सचिव अशोक यादव,विजय यादव, युवा अध्यक्ष उदय यादव, रामचरित्र यादव, रवि यादव,भूषण यादव, कपिल यादव, अनिल यादव, मदन यादव, छोटी यादव, कैलाश यादव, दिनेश यादव, बाबूलाल यादव,प्रमोद यादव, अजय यादव, शशि यादव, सुनील यादव, शक्ति यादव,विनोद यादव, लखन यादव, किशोरी यादव, नागेश्वर यादव, महेश राउत,कोषाध्यक्ष आलोक यादव, नितेश यादव, जानकी यादव, मन्नू यादव,दामोदर यादव, मुकेश यादव, पप्पू यादव, पवन यादव, तारकेश्वर यादव, अजित यादव, मंटू यादव, लाटो यादव, अशोक यादव, उपेंद्र यादव, पिन्टू यादव, डॉ सतेंद्र यादव, गोकुल यादव, योगेंद्र यादव, कैलाश यादव, दशरथ यादव, दिनेश यादव,भुखन यादव, मुकेश यादव, सदानंद यादव, कांग्रेस यादव, उमेश यादव, शिवकुमार यादव, महेश यादव, विकास यादव, लातो यादव,कमल महतो, मनोज यादव, राकेश यादव, भीखन यादव,मोहन यादव, कमलेश यादव, गोपाल यादव, चंदन यादव,लक्ष्मी नारायण यादव आदि मौजूद थे।

भाकपा माले निमाडीह लोकल कमिटी की बैठक हुआ संपन्न

गांवा में मनरेगा और योजनाओं में स्वीकृति के नाम पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का नंगा नाच हो रहा है : राजकुमार यादव

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। गांवा प्रखंड अंतर्गत निमाडीह पंचायत के ग्राम विश्नीटिकर में भाकपा माले लोकल कमिटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा माले प्रखंड कमिटी सदस्य प्रदिप यादव एवं संचालन रंजीत कुमार ने किया।इस बैठक में पार्टी मजबूती, नए सदस्यों कि भर्ती, रेनुवल एवं ब्रंचो की पुनर्गठन को लेकर रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा की अभी लगतार ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढता जा रहा है।आए दिन मनरेगा योजना हो या कोई अन्य काम बिना पैसा के स्वीकृति नहीं करते है।यदि नौजवानों को मनरेगा में स्वीकृति नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगे।दुसरी और जिस तरहा कोरोना के कारण जिस तरहा से पलायन है बेरोजगारी है तो सरकार की ऐ जिम्मेवारी है मनरेगा ऐक्ट को मजबूती से लागू किया जाए।और उन्होने कहा की आज मोदी सरकार द्वारा किसानों के साथ गद्दारी किया और जो समझौता हुआ उसे लागू नहीं किया गया।नौजवानों के आर आर बी और एन टी पीसीके रिजल्ट में धांधली हुवा और छात्रो द्वारा सरकार से रेलवे और एनटीपीसी रिजल्ट जांच की मांग की किया गया तो छात्रों के उपर बर्बरता तरीके से लाठी बरसाया गया इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।हम हेंमत सरकार से मांग करते हैं की झारखण्ड में 1932 की स्थानीय नीति लागू करे और युवाओं को स्थानीय पहल पर बहाल करें। मौके पर रंजीत कुमार, प्रदीप कुमार, पंकज यादव, संतोष पंडित, भोला यादव, अनिल कुमार, बबलू यादव, विकास यादव, मोहन यादव, रमेश कुमार समेत दर्जनों नौजवान शामिल रहे।

गिरिडीह तैलिक साहु समाज द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच किया गया कम्बल वितरण

बेंगाबाद/गिरिडीह/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। तैलिक साहु समाज के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड छेत्र के ताराटांड़,तेलोनारी व ओझाडीह पंचायत के जरूरत मदों के बीच सैकड़ो कंबल किया वितरण। मंगलवार को ता-राटांड पंचायत अंतर्गत ग्राम फुफन्दी गाँव में तैलिक साहू समाज के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता ताराटांड़ पंचायत अध्यक्ष राजु साव ने किया। जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तैलिक साहु सभा के जिला संगठन सचिव बुधन साव,पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह जिला कार्यसमिति सदस्य मिथलेश्वर साव। उपस्थित लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अथितियों ने कहा कि हमारा समाज लगातार लोगों की सेवा कार्य करती है कभी रक्तदान शिविर,कभी कंबल वितरण आदि का शिविर लगाकर लोगों को मदद करने का काम करती है आज इसी कड़ी में बेंगाबाद के फुफन्दी गांव में सेकड़ो कंबल जरूरमंद लोगों के बीच किया गया। आज के इस कंबल वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से बिनोद साव, कुलदीप साव,एतवारी साव,एकल साव,फोदारी सिंह का अहम योगदान रहा। इस मौके पर मुख्य रूप से मसोमात ललिता देवी,मसोमात कुंजवा देवी,महादेव राणा,सुदामा देवी,सरिता देवी, सुनीता देवी आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ग्रेनेडियर का गावां में हुआ भव्य स्वागत

गिरिडीह/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत 14 ग्रेनेडियर निरंजन कुमार सिंह मंगलवार को अपने पैतृक गांव गावां प्रखण्ड के मंझने आये। इस दौरान पूरे गावां वासियों के द्वारा उनके स्वागत में जगह जगह भव्य स्वागत समारोह एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सबसे पहले पटना चौक पर उनके लिए भव्य स्वागत समारोह किया गया और उसके बाद वहां से शोभायात्रा के साथ हजारों की संख्या में लोग दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों से गावां होते हुए उनके पैतृक गांव मंझने तक पहंचे। इस सम्मान समारोह सह शोभायात्रा यात्रा में शामिल लोगों का जनसैलाब ग्रेनेडियर निरंजन कुमार सिंह की देश सेवा की शक्ति और उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। अपने पैतृक गांव मंझने पहुंच कर उन्होंने तमाम गांव वासियों को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि यहाँ का कोई भी नौजवान अगर सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता है तो वो मुझसे मिले मैं उसे निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां के लोगों को इतना जागरूक करूंगा कि यहाँ के और भी युवा सेना जॉइन कर भारत माता की सेवा कर सके। इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर और निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात भी कहे। इस कार्यक्रम में पूरे गावां प्रखण्ड के हजारों की संख्या में लोग सामिल थे।

अधिवक्ताओं ने इंसाफ के लिए किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। बार एसोसिएशन गिरिडीह के सामने बार एसोसिएशन के अधिवक्तों ने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। धरना का मुख्य उद्देशय अधिवक्ता पर हो रहे आक्रमण अधिवक्ताओं के साथ दूर व्यवहार को लेकर यह धारणा दिया गया था। धरने में सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बड़े दुख के साथ भाग लिया और आज का दिन पेन डाउन रखा गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन को या समाज को अधिवक्ता जो समाज में न्याय दिलाने के लिए हमारे पास है। उनके साथ दुर्व्यवहार उनके उपर आक्रमण एक निंदनीय कार्य है। जिसको अधिवक्ता परिवार, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन किसी भी किसी किमत पर बरदाश्त नहीं करेगा। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय और बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत भी शामिल रहे। धरणा का संचालन अधिवक्ता साजिद मोहम्मद द्वारा किया गया। महासचिव चुन्नू कांत ने कहा की एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को जल्द एक्ट बांकर उसे तुरंत एक्ट की शक्ल में देख कर इस्तेमाल परित किया जाए। और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसा प्रचार किया जाए की कोई भी व्यक्ति अधिकारी से दुर्वायवाहर करता है उसे खिलाफ गैर जमानती अपराध माना जाए और उसे 6 महीने से लेक-र 5 साल तक की जेल दिया जाए। और उसके लिए किसी भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता मंटू सिन्हा, महिला अधिवक्ताओं में उर्मिला शर्मा, कला सहाय, सुनीता सिंह, अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। इसके अलावा मुख्य रूप से अधिवक्ता बाल गोविंद साहू बबन, अधिवक्ता मित्रा, अमित कुमार सिन्हा, बलराम, केपी यादव, फैयाज अहमद, शिवाजी सिंह, अंजनी सिन्हा, सालिनी सिन्हा, एकलव्य, पुरुषोत्तम, उदय सिन्हा, संजीत आदि उपस्थित रहे।

झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज युवाओं ने किया जोरदार स्वागत

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के प्रथम आगमन पर गिरिडीह युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मो हसनैन अली के नेतृत्व में गिरिडीह युवा की टीम ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। गिरिडीह युवा कांग्रेस की टीम प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज का ऐतिहासिक काफिला के साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से झारखंड कांग्रेस भवन तक पहुंचा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज का हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और रांची के युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए बधाई दी। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मो हसनैन अली ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष से गिरिडीह आने का निमंत्रण दिया।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हसनैन अली ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी बे-हद ऊर्जावान है और बहुत ही जल्द उनका गिरिडीह आगमन होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों युवा एक साथ युवा कांग्रेस का दामन थामेंगे। मौके पर जिला उपाध्यक्ष शशि शर्मा, गांडेय विधानसभा अध्यक्ष हसनैन आलम, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष मो सहनवाज, डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर। जमुआ विधानसभा अध्यक्ष अहमद रजा नूरी। बगोदर विधानसभा अध्यक्ष आबिद अंसारी, युवा कांग्रेस के बेलाल अहमद हुसैनी सहित युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

जरीडीह बाजार देवा होटल में लगी आग, कई सामग्री जलकर हुए राख

- स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया

बेरमो। जरीडीह बाजार।जरीडीह बाजार सब्जी मंडी स्थित देवा होटल में सोमवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की घटना में दुकान में रखें कुर्सी, टेबल, अलमीरा, मिठाई व अन्य कई सामग्री जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि दुकान मालिक आए दिन की तरह रात्रि 8:00 बजे अपने होटल को बंद करके घर चले गए थे लोगों ने दुकान मालिक को घटना की सूचना दिए वही घटना की सूचना आग की तरह पूरे बाजार में फैल गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई वहीं घटना की सूचना पाकर गांधीनगर पुलिस प्रशासन भी पहुंची । घटना के संबंध में बताया जाता है कि छत के ऊपर कोयले से जला हुआ चूल्हा दुकानदार जला छोड़ गए थे जिस कारण यह घटना घटी।

गांवों के गरीब, मजदूर,किसान के हित में आम बजटः दीप नारायण सिंह...

धनबाद। जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आम बजट गांव-गरीब, मजदूर-किसान के हित में है। बजट में किसान, मजदूर और गरीब को विशेष ध्यान रखा गया है। गरीबों का अपना आशियाना हो इसके लिए 80 लाख आवास निर्माण की योजना बनाई गई है। ग्रामीण विकास के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है, वर्तमान समय में आम बजट इससे उपयुक्त नहीं हो सकता।

सरस्वती पूजा को लेकर गांधीनगर थाना में शांति समिति की हुई बैठक

- यहां बैठक में पूजा कमटियों को बेरमो बीडीओ का सख्त निर्देश, पूजा पंडालों में सोशल डिस्टेंसिग व कोविड गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा।
- मूर्ति विसर्जन जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी, चंद ही लोग विसर्जन में शामिल हो सकेंगे।

बेरमो। जरीडीह बाजार।बेरमो प्रखंड के गांधीनगर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार को बेरमो बीडीओ मधु कुमारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, बैठक में बेरमो सीओ मनोज कुमार भी मुख्य रुप से मौजूद थे। पूजा को शांतिपूर्ण और कोविड गाइडलाइन के अनुरुप मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। कहा गया कि पूजा पंडालों में भीड़ भाड़ लगाने व डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिग व अन्य कोविड गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। मूर्ति विसर्जन जुलूस निकालने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी, विसर्जन में चंद ही लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं विद्यालयों में भी कोविड गाइडलाइन के अनुरुप पूजा संपन्न कराने की बात कही गई गई। बीडीओ व सीओ ने कहा कि गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाले पूजा पंडालों के कमेटी पर प्रशासन अवशय करवाई करने पर विवश होगी। पूजा के दौरान उपद्रव फैला ने वाले आ शरारती तत्वों व छेड़खानी करने वाले लोगों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी। मौके पर थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह, एसआई सुधीर कुजुर, ए.एसआई संजय सिंह के अलावा समाजसेवी सुबोध सिंह पवार, ओमप्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, ओम प्रकाश साव, नवीन पांडेय, शेखर सिंह, संजय हरी, सलीम उर्फ चुन्नू, सुनील सिंह ,पन्ना, कपिल सोनी, सूरज रविदास आदि मौजूद थे।

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य व अधिवक्ता पर हुए हमले के विरोध में कार्य बहिष्कार

डुमरी। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य व अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर हुए कातिलाना हमले के विरोध में बार काउंसिल के आहवान पर अनुमंडल न्यायालय डुमरी से जुड़े सभी अधिवक्ता अनुमंडल अधिवक्ता संघ डुमरी तदर्थ कमेटी के बैनर तले आज अपने आप को अदालती कार्यवाही से अलग रखा।अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले पर चिंता जताते हुए अनुमंडल अधिवक्ता संघ तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत जायसवाल एवं सचिव अशोक जैन ने सरकार से अधिवक्ताओं को पूर्ण सुरक्षा देने एवं सुरक्षा से संबंधित कानून पास करने की मांग की।इस आशय की सूचना अनुमंडल प्रशासन को भी दी गई तथा एक फरवरी को निर्धारित मामलों को अगली तिथियों में निष्पादित करने का अनुरोध किया गया।संघ के अध्यक्ष व सचिव के अलावा विजय कुमार,छत्रधारी महतो,विनय कुमार सिन्हा,सच्चिदानंद शर्मा,कुमारी अर्चना,मुकेश शर्मा,अरुण कुमार गुप्ता,हरी प्रसाद मेहता सहित विभिन्न अधिवक्ताओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।

विधायक शामिल हुए धरना में कहा-

मंदिर के आसपास कोई निर्माण कार्य उत्पाद विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। मंगलवार को पिछले 28 जनवरी से गिलानेश्वर महादेव मंदिर परिसर बचाओ अभियान को लेकर चल रहे धरना कार्यक्रम में दुमका विधायक बसंत सोरेन धरना स्थल पर धरणार्थियों के साथ मिलकर धरना पंजी में हस्ताक्षर कर धरना में शामिल हुए और वस्तुस्थिति से अवगत हुए। पूरे मंदिर परिसर का मुआयना भी किया तथा उपस्थित जनसमूह के समक्ष आश्वस्त किया कि मंदिर परिसर को यथावत रखते हुए उत्पाद विभाग के द्वारा नव निर्माण के कार्य जो होना है। उससे अवगत उच्चाधिकारियों से होकर रुकवाने की पहल करते हुए अन्यत्र कहीं बनवाने की दिशा में मेरे द्वारा पहल की जाएगी। तथा सभी से आग्रह किया की धरना स्थगित कर दिया जाए ।मंदिर के आसपास कोई निर्माण कार्य उत्पाद विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्वेता झा एवं वार्ड पार्षद सीमा देवी उपस्थिति थी । अध्यक्षा ने कहा की नगर परिषद के द्वारा भी भविष्य में मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं अन्य कई कार्यों पर विचार किया जा रहा है ।इस अवसर पर चंद्रशेखर मिश्र,सिंहेश्वर झा,अरुण सिंह,विनोद मिश्र,कुंदन झा, रामचंद्र झा, माणिक मोदी,सुनील सिंह, संदीप कुमार जय बमबम,नीलांबर पाठक,पंकज कुमार रजक,संतोष भदौरिया, उत्तम कुमार मिश्र,चंदन कुमार मोदी, प्रीतम कुमार, भीम लाल राउत ,सुरेश चंद्र मिश्र,मनोज सिंह, पार्वती देवी, रवि कुमार सिंह,अमित कुमार मिश्र,संजय मोदी, सज्जन शर्मा,आशुतोष, अमरनाथ ठाकुर,दिनेश ठाकुर,रवि सिंह,पप्पू राउत,जयंत सिन्हा,रिसु सिन्हा, रंजीत प्रसाद,अनिल यादव,जानकी देवी, तुलसी देवी, रूपा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी,रूपा देवी,लाडो कुमारी, निर्मला देवी, मरियम खातून, बसंती देवी,जाब्ता बीबी,रंजू देवी, पिंकी देवी, साक्षी कुमारी,रानी देवी,शाकंभरी देवी, ज्योति कुमारी आदि उपस्थित थे।

उर्दू एकेडमी, मदरसा एडुकेशन बोर्ड, सरकार जल्द गठन करें : मुफ्ती सईद

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

संवाददाता/जामताड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता सह शिक्षाविद मुफ्ती सईद आलम के नेतृत्व में सोमवार मौलाना तैय्यब कासमी के आवास पर प्रेस कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा अल्पसंख्यक के मुद्दे नहीं हो रहे हैं हल। मुफ्ती सईद ने कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार के 2 वर्ष गुजर गए। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन झारखण्ड के अल्पसंख्यक मुस्लिमों की बुनियादी समस्याओं के हल के लिए कोइ ठोस पहल कारगर नहीं की गई है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को मुस्लिम अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने पर ज़ोर दिया साथ ही माँग की कि अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न बोर्ड,निगम का जल्द से जल्द गठन किया जाए। उर्दू एकेडमी, मदरसा एडुकेशन बोर्ड, बुनकर आयोग सहित अन्य मुद्दों को उठाते हुए कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार के गठन के बाद से कई मंत्रियों-विधायकों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया लेकिन अबतक इन समस्याओं के हल के लिए कारगर पहल नहीं किये गए। इस अवसर पर सीनियर जर्नलिस्ट मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी मौलाना सरफराज कासमी आदि कई मौजूद थे !

सेवानिवृत अनुसेवक को दी गई भावभीनी विदाई

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। जामा प्रखंड मुख्यालय में अनुसेवक पद पर कार्यरत झरिल मंडल को सेवानिवृत्त होने पर समारोह का आयोजन कर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सामुहिक रूप से विदाई दी गयी। अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मी अनुसेवक झरिल मंडल को प्रखण्ड कर्मियों ने माल्यार्पण कर एवं शॉल ओढ़ाया और अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए विदाई दी। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय जामा के अधीन अनुसेवक पद पर झरिल मंडल प्रखंड मुख्यालय में कार्यरत थे जो कि आज 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। अवसर पर विदाई समारोह के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव ने कहा कि झरील मंडल ने सदैव अपने दायित्व पर तत्पर रहते हुए सेवा दी है और निष्ठा पूर्वक योगदान दिया है।उनके कार्यों को याद रखा जायेगा।इस अवसर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी सखी चंद्र दास प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हरे कृष्ण देव प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी नवीन कुमार पंकज बीपीओ पवन कुमार सिंह आशा रोज सहित प्रखंड परिवार के सदस्य मौजूद थे।

पीएम आवास में अवैध निकासी मामले में बीडीओ ने कर्मियों से मांगा स्पष्टीकरण

हज़ारीबाग। केरेडारी के बेलतू निवासी सुरेश सिंह के आवेदन पर केरेडारी बीडीओ ने बीएफटी, रोजगार सेवक को कारण बताओं नोटिस जारी किया। बीडीओ ने नोटिस जारी कर बीएफटी उमेश स्वर्णकार, रोजगार सेवक सूरज राम को स्पष्टीकरण जारी कर 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बीडीओ किस्टो कुमार बेसरा ने कहा मामले को गंभीरता से लिया गया है,जल्द ही आवास से अवैध निकासी मामले की जांच होगा, गलत निकासी का प्रमाण मिलते ही संबंधित कर्मी के विरुद्ध मामला दर्ज किया जायेगा।
जॉबकार्डधारी ने बीडीओ को दिया आवेदन देकर सुरेश सिंह के आवास योजना से अवैध पैसा निकासी के मामले के आरोपी मजदूर शमीम मियां, सोहवा देवी समेत कई मजदूरों ने केरेडारी बीडीओ को लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में मजदूरों ने लिखा है की पंचायत के जमीरा गांव के बजेंद्र सिंह के पत्नी ने हम सब का डिमांड सुरेश सिंह के आवास में डिमांड कराकर 9312 रुपया की अवैध निकासी किया गया है, पैसा आते ही बजेंद्र सिंह के द्वारा पूरा पैसा का निकासी कर लिया गया। इस मामले में मनरेगा मजदूरों ने केरेडारी बीडीओ से जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है।

बड़कागांव झारखंड ग्रामीण बैंक के रोकड़ पाल सेवानिवृत्त ,विदाई समारोह का आयोजन

बड़कागांव। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बड़कागांव शाखा के रोकड़ पाल दर्शन रविदास सेवानिवृत्त हो गए। बड़कागांव शाखा में भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में शाखा वरीय प्रबंधक जितेंद्र यादव एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी कृष्णा राम ने माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर एवं उपहार देकर दर्शन रविदास को विदाई दिया।
दर्शन रविदास बड़कागांव प्रखंड के गोसाई बलिया गांव के निवासी हैं, 1991 में ग्रामीण बैंक में योगदान दिए थे । प्रखण्ड रविदास महासभा के महासचिव कृष्ण राम ने बाबा साहेब डॉ आंबेडकर जी के मेमोंटो देते हुए कहा कि, कैशियर साहेब बैंक के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते थे कई सराहनीय कार्य किए हैं। मौके पर वरीय प्रबंधक जितेंद्र यादव ,कृष्ण राम, उप प्रबंधक मो, शमीम खान, बिश्रामपुर शाखा के प्रबंधक संजीव कुमार, उप प्रबंधक ऋषि आनंद, कैशियर विवेकानंद शरण, गणेश पासवान, दीपक कुमार, सावर अग्रलवाल, डॉ शंकर मोदी, सेवानिवृत्त सुरेंद्र जायसवाल , लखन राम, बलदेव रजक,विकास कुमार ,जयनाथ नायक,देवलाल रविदास आदि कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे।

डकैती मामले में केरेडारी पुलिस ने लगातार दूसरे दिन तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

हज़ारीबाग। केरेडारीथाना क्षेत्र के हेंदेगीर में घर मे डकैती के मामले में आज दूसरे दिन भी तीन फरार अभियुक्तों की गिरफ्तार करने में केरेडारी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। केरेडारी थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि कांड संख्या 11/22 के तहत दर्ज मकान डकैती मामले में 30 जनवरी को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उसी के निशानदेही पर तीन और आरोपी जो फरार होने में कामयाब हुए थे, उसे केरेडारी पुलिस ने दूसरे दिन जाल बिछाकर बुंडू गांव से रात्रि में गिरफ्तार कर 31 जनवरी को केंद्रीय कारावास भेज दिया गया।गिरफ्तार आरोपियों में मतलु राम,निरंजन तुरी,नीरज कुमार सभी बुंडू गांव के हैं, इनसभी आरोपियों से भी पुलिस ने नकदी 31000 रुपये बरामद किया। दर्ज मामले के अनुसार थाना क्षेत्र के हेंदेगीर गांव मे नारायण साव के घर में बीते दिनों इन सभी ने मिलकर लुटपाट को अंजाम देकर फरार हो गया था।ततपश्चात भुक्तभोगी ने इस घटना को लेकर केरेडारी थाना मेंअज्ञात लोगों पर शिकायत दर्ज कराया गया था, पुलिसिया जांच के दौरान पहले दिन तीन आरोपियों को कब्जे में लिया गया जिसके बाद इनलोगों ने चार अन्य को इस कांड में शामिल होने की बात कही गई जिसमें चार में से तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया वही एक और आरोपी फरार बताया गया है।

नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 03 कृष्णापुरी में पीसीसी सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम

जामताड़ा । नगर पंचायत जामताड़ा अंतर्गत वार्ड नंबर 03 कृष्णापुरी में पीसीसी सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम नगर पंचायत अध्यक्ष रीना कुमारी के निर्देशानुसार नगर पार्षद अनीता देवी के उपस्थिति में संपन्न हुआ उक्त सड़क मलिंद पाल के घर से रंजीत यादव के घर होते हुए नरेंद्र कुमार मजूमदार के घर तक जाती है जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया यह सड़क वार्ड नंबर 03 का महत्वपूर्ण सड़क है मौके पर उपस्थित नगर पंचायत जामताड़ा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने कहा कि सड़क लोगों के लिए महत्वपूर्ण है सड़क बनने से न केवल आवागमन में सुविधा होती है बल्कि रोजगार का अवसर भी पैदा होता है मंडल के अनुसार सड़क किनारे स्थानीय युवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान, सैलून खड़ा कर परिवार का भरण पोषण हेतु अवसर उपलब्ध होता है मंडल ने कहा कृष्णा पुरी और कुदालखुशु के लोगों के आने जाने में सुविधा होगी। मंडल ने नए सड़क के लिए सभी को शुभकामना दिया। उपस्थित लोगों ने सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम से प्रसन्न दिखे एवं लोगों ने कहा कि इस सड़क के निर्माण हो जाने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी ' स्थानीय लोगों के अनुसार यहां के लोगों का पुरानी मांग थी जो आज पूरे होते दिखाई पड़ रही है इसके लिए लोगों ने नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष रीना कुमारी के साथ-साथ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल का प्रशंसा करते दिखे उपस्थित लोगों के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष रीना कुमारी के प्रयास से नगर पंचायत जामताड़ा का चोमुखी विकास हो रहा है परिणाम सभी के सामने है मौके पर रंजीत प्रसाद यादव,सच्चिदानंद यादव ,सागर महतो, प्रेमलाल सिंह दीनबंधु घोष, मदन मंडल, राजेश ठाकुर, राहुल रजक, सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

सिलाई के हुनर को सरकारी योजना ने दी नई दिशा, आत्मनिर्भर बनाया महिला को

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

हजारीबाग। यशोदा देवी पति नरेश प्रजापति गांव सरिया, पंचायत आंगों, प्रखण्ड चुरचू, जिला हजारीबाग की निवासी है, जो झारखण्ड स्टेट प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएलपीएस) द्वारा गठित विष्णु मंडल समूह की सदस्य हैं।
इनके समूह को के द्वारा चक्रिय निधि की राशि 15000 रूपये, सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50 हजार, बैंक से ऋण 2 लाख रूपये प्रदान की गई है। समूह से जुड़ने से पूर्व दीदी अपने व्यवाहीक और पारिवारिक जीवन में व्यस्त थी और एक आम दीदी के जैसा अपना जीवन यापन कर रही थी। जेएसएलपीएस अन्तर्गत वह विष्णु महिला मंडल समूह में जुड़ने के बाद दीदी ने समूह से जुड़कर उसका उपयोग करना शुरू किया। दीदी अपने व्यवाहीक जीवन से पूर्व उनके हाथ में सिलाई का हुनर प्राप्त था। जिसमें दीदी को कपड़े का सिलाई की पूरी जानकारी थी और वह अपने मायके में ही कहीं ना कहीं सिलाई से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर आई थी लेकिन उनके पास पूंजी के अभाव के कारण वह अपने हुनर का प्रयोग नहीं थी फिर उन्होंने अपने समूह से 40 हजार का ऋण लेकर समूह के दीदीयों के साथ सिलाई सेंटर खोलने का निर्णय लिया और चार सिलाई मशीन को खरीदा और अपने गांव के और दीदीयों को भी कपड़ा सिलने के लिए प्रशिक्षित की अपना कपड़ा सिलाई का एक दुकान खोला और अब दीदी पूरे गांव के कपड़े को जब भी जरूरत होता है सिलाई करती है। दीदी अपने सिलाई सेंटर पर ब्लाउज, पेटिकोट, स्कूल यूनिफार्म सलवार सूट सिला करती है, इससे दीदी की मासिक आमदनी 7 हजार से 8 हजार तक बढ़ गई है।
यशोदी देवी अपने पारिवारिक जीवन स्तर को ऊँच उठा रही है और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। ग्राम के लोगो के सहयोग से अपने कार्य को भी बढ़ा रही है अपने हुनर का प्रयोग करके और जेएसएलपीएस एवं महिला समूह के सहयोग प्राप्त कर दीदी काफी उत्साहित है। अपने कार्य को गति देने के साथ यशोदी देवी आगे बढ़ रहीं है और आत्मनिर्भर बन रही है।

22 कांडो का फरार अपराधी हुआ से गिरफ्तार

हज़ारीबाग। हजारीबाग और रामगढ़ में आतंक का पर्याय बन पुलिस के आंखों में धूल झोंकने और एक से बढ़कर एक अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल वांछित अभियुक्त अरविंद हेंब्रोम पिता मार्शल हेंब्रोम सीता गड्ढा को इचाक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हजारीबाग डीवीसी हीरा बाग के पास से 30 जनवरी की रात धर दबोचा। अरविंद के खिलाफ हजारीबाग के कटकमसांडी बिष्णुगढ़ चरही चुरचू केरेडारी बिष्णुगढ़ मुफस्सिल बरकट्ठा आदि विभिन्न थानों के अलावा रामगढ़ जिला के मांडू थाना में सड़क लूट डकैती रंगदारी चोरी छिनतई के बा-इस केस दर्ज है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि नवंबर 2020 में अरविंद हेंब्रोम के दास्तां द्वारा थेपाई पुल के पास गया के आलू व्यवसाई से मोटी रकम का लूटपाट की गई थी। जिसके खिलाफ इचाक थाना में कांड संख्या 299/2020 दर्ज किया गया था। लूट कांड को अंजाम देने में शामिल उसके दस्ते के कुछ अपराधियों को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि गिरोह के सरगना अरविंद हेमरोम की तलाश पुलिस को पिछले 2 साल से थी ।बताया कि अरविंद अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराने लूट की राशि में हिस्सेदारी लेने तथा लेवी वसूलने का भी काम करता था ।जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उन्होंने बताया कि अरविंद हेमरोम की गिरफ्तारी से लूटपाट से संबंधित कई मामलों से पर्दा उठने की उम्मीद है। बाहर हाल अरविंद हेमरोम को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है उम्मीद जताई जा रही है कि उसे मंगलवार को जेल भेजा जाएगा जहां से रिमांड पर लेकर दोबारा पूछताछ की जा सकती है।

आम लोगों के हाथ कुछ नहीं आया,

पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा ये बजट

मंगलवार एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सबको उम्मीद थी कि लागातर दो सालों से कोरोना की मार, बढ़ती महंगाई, युवाओं में रोजगार को लेकर बढ़ता रोष, कॉरपोरेट्स के निवेश में गिरावट को सरकार इस बजट के जरिए साधने की कोशिश करेगी. पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का भी बजट पर असर होगा.

वित्त

मंत्री द्वारा किए गए कुछ ऐलान का तो जरुर दूरगामी असर देखने को मिलेगा। लेकिन आम लोगों की आंकाक्षाएं धूमिल हो गई हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 5 ट्रिलियल डॉलर इकोनॉमी बनाने का जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने अगले 25 सालों में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा उस काल में देश के नवनिर्माण करने की बात कही और उसे अमृतकाल बताया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में पूंजीगत खर्चो जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी का ऐलान किया। कोरोना महामारी के बीच 2022-23 में सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च करेगी जिसके भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सके और विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 25000 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण किया जाएगा। गांवों में सड़क निर्माण पर जोर दिया जाएगा, शहरों में मासट्रॉजिट सिस्टम के साथ 3 सालों में 400 नए वंदेभारत ट्रेनें चलाई जाएगी।

मोदी सरकार ने हर घर को नल से जोड़ने के लिए भारी भरकम 60,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी जिससे 3।8 करोड़ घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। सोलर मॉड्यूल्स में लोकल मैन्युफैकचरिंग को बढ़ावा देने के लिए 19500 करोड़ रुपये का पीएलआई स्कीम लेकर आएगी। इसका बड़ा फायदा घरेलू मैन्युफैकचर्रस को मिलेगा। सरकार ने कम आय वाले लोगों को लिए और ज्यादा घर बनाने का ऐलान किया है। इसका फायदा रियल एस्टेट से लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को होगा।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 2022 में 5जी स्पेक्ट्रम की निलामी होगी। जाहिर है इससे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। सेक्टर में निवेश आएगा। बजट में डाटा स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्र का दर्जा देने से भी कंपनियों को फायदा होगा। डिफेंस सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 68 फीसदी हिस्सेदारी लोकल कंपनियों की होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम के तहत छोटी कंपनियों को कर्ज देने की समयसीमा को मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया है और इस योजना के तहत राशि 5 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

एक अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच बने स्टार्टअप्स को टैक्स होलिडे का लाभ अब 31 मार्च 2023 तक मिलेगा।

कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्कूल बच्चे प्रभावित हुए हैं। बच्चों को डिडिटली पढ़ाई करने के लिए सरकार PM e-Vidya योजना लेकर आ रही है जिसमें हर कक्षा के लिए टीवी चैनल होगा वो भी हर भाषा में। इसके अलावा डिडिटल यूनिवर्सिटी भी खोला जाएगा। वित्त मंत्री क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया है। हालांकि क्रिप्टो को लेकर उन्होंने नहीं बताया कि सरकार विधेयक कबतक लेकर आ रही है।

निर्मला सीतारमण के बजट से सबसे ज्यादा निराशा मध्यम वर्ग को हुआ है जो पिछले कई महीनों में महंगाई से जूझ रहा है। वेतनभोगियों के हाथों में भी निराशा हाथ लगी है। सरकार से कई टैक्स के जानकारों ने टैक्स में सुधार करने की सुझाव दिया था। टैक्सपेयर्स को उम्मीद खी कि उन्होंने कुछ राहत मिलेगी।

डिमांड और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे देने का भी सुझाव दिया गया था। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री इन लोकलुभावन कदम से बचती नजर आईं। वित्त मंत्री का फोकस कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर था। ये भी संभव है कि सरकार ने कुछ घोषणाओं को अगले बजट के लिए छोड़ दिया है क्योंकि 2024 अभी दो साल दूर है।

दूरदराज और गांव-गांव तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड- सीतारमण

वित्त मंत्री ने अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट मंगलवार को पेश किया है. 2022-23 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 5G ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की सेवाओं को लेकर बड़ा एलान किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट मंगलवार को पेश किया है। 2022-23 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 5जीऑफ ऑप्टिकल फाइबर की सेवाओं को लेकर बड़ा एलान किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके बाद दूरसंचार की निजी कंपनियां देश में 5जी सेवाओं की शुरूआत कर सकेगी। 5जी सर्विस शुरू होने से भारत डिजिटल की दुनिया में और तेजी से अपने काम को बढ़ा सकती है। 5जी सर्विस शुरू होने से स्मार्टफोन को और बेहतर ढंग से यूजर यूज कर सकते हैं।

2025 तक देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के एलान किया कि साल 2025 में देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ठेके दिए जाएंगे।

ऑप्टिकल फाइबर के पहुंचने से गांव में और दूरदराज के इलाकों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं के लिए रिचार्ज और डेवलपमेंट में भी बढ़ावा मिलेगा। देश में हर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से करेगी।

इन कंपनियों को 5जी सर्विस शुरू करने की मिलेगी जिम्मेदारी

भारत में जल्द से जल्द 5जी सर्विस शुरू करने के लिए टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस जियो और एयरटेल कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बेहतर सर्विस व कम दामों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा पहुंचाने के लिए इन कंपनियों को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड का 5% भी दिया जाएगा।

तीन चरणों में पूरी होगी परियोजना

पहले चरण में भूमिगत ऑप्टिक फाइबर केबल लाइन बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

दूसरे चरण में भूमिगत फाइबर, बिजली लाइनों पर फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया की मदद से देश के सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तीसरे चरण में एक अत्याधुनिक, फ्यूचर-प्रूफ नेटवर्क के तहत जिलों और ब्लॉकों के बीच फाइबर को विस्तारित करने हेतु रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

दूरदराज और ग्रामीण क्षेतों में इसका मिलेगा लाभ

ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू होने से भारत डिजीटल की दुनिया में एक और कदम रख लेगा। इस सेवा के शुरू होने से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में ग्रामीण बेहतरीन स्पीड के साथ इंटरनेट सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। ग्रामीण इलाके के लोग इंटरनेट के माध्यम से खेती के लिए और अच्छी तकनीकों की जानकारी ले सकेंगे। जिससे ग्रामीण इलाके के किसानों के कृषि संचार में तेजी आएगी।

क्या महंगा क्या सस्ता?

- महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल
- सस्ते होंगे मोबाइल फोन के चार्जर
- महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने
- बारिश से बचाने वाली छतरियां महंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई। लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...

महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आखिर में घोषणा की कि एक अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा।

सस्ते होंगे फोन के चार्जर

बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है।

महंगे होंगे हेडफोन, इयरफोन

सरकार ने बजट में Wearable और Hear-able के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, इयरफोन महंगे होंगे।

सस्ते होंगे रत्न-आभूषण

रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने

सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टीफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं।

महंगी होंगी छतरियां

बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है।

स्टील कबाड़ का आयात रहेगा सस्ता

छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे टरटए सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी।

मेथेनॉल हुआ सस्ता

सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा।

ये भी हुआ महंगा सीमाशुल्क की दरों में बदलाव के चलते कई और वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं पेश की हैं, इसलिए इन पर सीमाशुल्क बढ़ाया गया है।

ग्रोथ के साथ महंगाई बढ़ाने वाला बजट:

एक्सपर्ट व्यू- जनता को लुभाने वाला नहीं, जोखिम लेने वाला बजट लाई है सरकार; 6 सवाल में जानिए सब कुछ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-23 से आम जनता को बड़ी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में कई लुभावनी घोषणाएं कर सकती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आम आदमी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, यह बेहद अहम है। इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि जनता को लुभाने की बजाय सरकार रिस्क-टेकिंग बजट लेकर आई है। हालांकि सरकार का टारगेट ग्रोथ को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके लिए वह मुद्रास्फीति, यानी महंगाई बढ़ने का रिस्क लेने को तैयार है। अय्यर बिजनेस न्यूज चैनल ईटी नॉव के कंसल्टिंग एडिटर हैं। आइए 6 सवालों में देखते हैं कि ओवरऑल इस बजट को लेकर उनका क्या व्यू है।



1. क्या यह लोकलुभावन या चुनावी बजट है?

- अय्यर ने कहा, यह लोकलुभावन, यानी आम आदमी को खुश करने के लिए लाया गया बजट नहीं है। यह एक रिस्क लेने वाला बजट है, जिसमें निवेश करने पर जोर दिया गया है। मैंने या अन्य लोगों ने जैसी उम्मीद लगाई होगी कि यह चीजों को सस्ता करने वाला बजट होगा, यह वैसा बजट नहीं है।
- बजट में खेती के लिए कोई खास रडढ नहीं है, बल्कि ओवरऑल बेहद मामूली बदलाव किया गया है।
- टैक्स दरों में कोई खास बदलाव नहीं है, बल्कि निवेश को बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन पर जोर दिया गया है।

2. क्या यह महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है?

अय्यर के मुताबिक सरकार ने निर्णय लिया है कि वह मुद्रास्फीति बढ़ने, यानी बाजार में महंगाई तेज होने का खतरा उठाने के लिए तैयार है। बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश नहीं की गई है। सरकार इस बारे में चिंता नहीं कर रही है। इसके उलट वो निवेश पर जोर देने जा रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजीगत खर्च) का 35% होगा।

3. डिजिटल रुपया आएगा, लेकिन क्या यह लाभदायक होगा?

बजट में सरकार ने अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है, लेकिन अय्यर इसे लेकर अभी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। उन्होंने कहा, डिजिटल रुपया एक नया आइडिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस तरह का होगा, इसका पेमेंट सिस्टम किस तरह का होगा, इस पर किस तरह का टैक्स लगेगा। यह सब स्पष्ट करना होगा, जो बिल्कुल एक नई बात होगी। हमें अभी इसके बारे में थोड़ा और जानना होगा।

4. ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट, लेकिन यह कैसे होगा?

अय्यर ने कहा, यह बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। सरकार का नजरिया फॉरवर्ड लुकिंग यानी दूरदर्शी है। सरकार खुद निवेश को बढ़ावा देने की कमान संभालेगी और इसके लिए निजी सेक्टर का उपयोग करेगी। यह काम सरकार और निजी सेक्टर के जॉइंट वेंचर्स के जरिए किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन से होने वाली आय से खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, जिसमें मेन फोकस रेलवे पर रहेगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. सरकारी एसेट के विनिवेश की बात, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल?

अय्यर ने सरकारी एसेट के विनिवेश यानी उसमें निजी सेक्टर को हिस्सेदारी बेचने के दावों पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार बेहद स्लो रही है। फैक्ट यह है कि सरकार 150 रेलवे ट्रेन, पैसेंजर रूट की नीलामी कर रही थी और कोई बोली लगाने तक नहीं आया। ऐसे में इस तरीके से रेवेन्यू जुटाने की कोशिश बड़े पैमाने पर फेल साबित हुई है, लेकिन इस फेल्योर के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया।

6. अब फ्हकपर नजर, कैसी हो सकती है नई क्रेडिट पॉलिसी?

बजट के बाद अब सभी की नजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) पर हैं, जिसे इसी हफ्ते अपनी क्रेडिट पॉलिसी पेश करनी है। अय्यर का मानना है कि आरबिआई की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जोखिम उठाने के फैसले का साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक तरफ आरबिआई ग्रोथ में बेहद सहायक रहा है, दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। हालांकि शक्तिकांत दास (मौजूदा आरबिआई गवर्नर) के समय में केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से लड़ाई करने वाले आरबिआई के बजाय ग्रोथ सपोर्टिव आरबिआई रहा है।

देश में महंगाई बढ़ रही है। होलसेल प्राइस (थोक मूल्य) 14% तक बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि हम अगले 1 या 2 साल में बहुत बड़ी महंगाई के हालात में आने वाले हैं। मुद्रास्फीति पूरी दुनिया में तेज है। अमेरिका में यह नई ऊंचाई छू चुकी है। फेडरल बैंक (अमेरिका) ने पहले एक साल में तीन बार ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान जताया था। अब लोग इसके 4 या 5 बार बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में आरबिआई क्या करेगा?

अय्यर ने कहा, मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण की तरह ही आरबिआई भी रिस्क-टेकर बनेगा। दोनों कहेंगे कि हम ग्रोथ हासिल करने के लिए महंगाई बढ़ने का जोखिम उठाएंगे। हमारा वित्तीय घाटा (fiscal deficit) करीब 6.5% है और ऐसे हालात में मुद्रा नीति बेहद सख्त होनी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि ऐसा होने जा रहा है। आरबिआई रिस्क उठाने वाला बनेगा। यदि वे बेहद कसी हुई मुद्रा नीति लाने की कोशिश करते हैं, तो यह असल में महंगाई रोकने में मदद करने के बजाय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम ही होगा।

आर एन आई (टी सी) नं-JHAHIN01027, स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक डॉ सिकंदर कुमार द्वारा मजिस्ट्रेट कॉलोनी बंदरजोरी दुमका से संचालित, प्रधान संपादक डॉ सिकंदर कुमार,मोबाइल नं-9955599136(इस अंक में प्रकाशित समाचारों का चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)